



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
IRCON INTERNATIONAL LIMITED



(A Govt. of India Undertaking)
An integrated Engineering and Construction Company

IRCON/CS/STEX/124

30th April 2021

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400001 बीएसई लिमिटेड लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001 Scrip code / ID: 541956 / IRCON	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block Bandra –Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी / आई, जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई-400051 Scrip Code: IRCON
--	---

Sub: Annual Disclosure to be made by a Large Corporate for the FY 2020-21 / वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बड़े कॉर्पोरेट द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण

Dear Sir/ Madam, महोदय / महोदया,

Pursuant to SEBI circular SEBI/HO/DDHS/CIR/P/2018/144 dated November 26, 2018, please find attached the Annual Disclosure of the Company as a Large Corporate for the FY2020-21.

Please take note of the above information on record.

सेबी के परिपत्र, सेबी / एचओ / डीडीएचएस / सीआईआर / पी / 2018/144 दिनांक 26 नवंबर, 2018 के अनुसार, एक बड़े कॉर्पोरेट के रूप में कंपनी का वार्षिक प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संलग्न है।

कृपया उपरोक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद,

भवदीया,

कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

रितु अरोड़ा
30/04/2021
(रितु अरोड़ा)



कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता क्र.: FCS 5270



Annual Disclosure to be made by an entity identified as a Large Corporate

Name of the Company : Ircon International Limited
 CIN : L45203DL1976GOI008171
 Report filed for FY : 2020-21
 Outstanding borrowing of company as on : 1845.92
 31st March, 2021 (in Rs. Cr.)

S. No.	Particulars	Details
1	Incremental borrowing done in FY (a)	Nil
2	Mandatory borrowing to be done through issuance of debt securities (b) = (25% of a)	Not Applicable
3	Actual borrowings done through debt securities in FY (c)	Nil
4	Shortfall in the mandatory borrowing through debt securities, if any (d) = (b) - (c) {If the calculated value is zero or negative, write "nil"}	Not Applicable
5	Reasons for short fall, if any, in mandatory borrowings through debt securities	Not Applicable




(Ritu Arora)

Company Secretary & Compliance Officer
 Contact Details- 9560595042


(Surajit Dutta)
CGM (Finance)

Contact Details- 9560595039



(Mukesh Kumar Singh)
 Director (Finance)/CFO
 Contact Details- 9821298600